

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 415]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-83/2019/18.—छ. ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत, झगराखण्ड, जिला -कोरिया (छ. ग.) के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :-

1. नगर पंचायत झगराखण्ड को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है ।
2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

—: अनुसूची :—

| वार्ड क्रमांक | वार्ड का नाम |
|---------------|------------------------|
| 1 | भगत सिंह वार्ड |
| 2 | महात्मा गांधी वार्ड |
| 3 | विवेकानन्द वार्ड |
| 4 | शिवाजी वार्ड |
| 5 | शास्त्री वार्ड |
| 6 | रानी लक्ष्मी बाई वार्ड |
| 7 | महाराणा प्रताप वार्ड |
| 8 | इंदिरा वार्ड |
| 9 | डॉ. अम्बेडकर वार्ड |
| 10 | नेहरू वार्ड |
| 11 | तिलक वार्ड |
| 12 | सरदार पटेल वार्ड |
| 13 | सुभाष वार्ड |
| 14 | नानक वार्ड |
| 15 | डॉ. राजेन्द्र वार्ड |

नगर पंचायत झगराखण्ड के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण**वार्ड क्र. 01, भगत सिंह वार्ड**

| | | |
|--------|---|--|
| उत्तर | — | रेल्वे फाटक कृष्णा चौधरी के घर से गुलाब सिंह के घर तक |
| पूर्व | — | गुलाब सिंह के घर से मो. नन्हे के घर तक |
| दक्षिण | — | मो. नन्हे के घर से रामानुज सिंह के दुकान तक |
| पश्चिम | — | रामानुज सिंह के दुकान से डामर रोड मुख्य मार्ग से होते हुए रेल्वे फाटक तक |

वार्ड क्र. 02, महात्मा गांधी वार्ड

| | | |
|--------|---|--|
| उत्तर | — | रंजीत दीवान के घर से रेल्वे फाटक तक |
| पूर्व | — | रेल्वे फाटक से डामर रोड मुख्य मार्ग से अशोक दुकान तक |
| दक्षिण | — | अशोक दुकान से मुबारक के घर तक |
| पश्चिम | — | मुबारक के घर से रंजीत दीवान के घर तक |

वार्ड क्र. 03, विवेकानन्द वार्ड

| | | |
|--------|---|--|
| उत्तर | — | मंधारी के घर से मौर्या क्लीनिक तक |
| पूर्व | — | मौर्या क्लीनिक से डामर रोड मुख्य मार्ग होते हुए रजनीश पाण्डेय के घर तक |
| दक्षिण | — | रजनीश पाण्डेय के घर से राधा चौधरी के घर तक |
| पश्चिम | — | राधा चौधरी के घर से मंधारी के घर तक |

वार्ड क्र. 04, शिवाजी वार्ड

| | | |
|--------|---|--|
| उत्तर | — | मनचाली सोनी भूसा दुकान से शंकर लोहार के घर तक |
| पूर्व | — | शंकर लोहार के घर से केशव, शिव बहादुर सिंह के घर तक |
| दक्षिण | — | शिव बहादुर सिंह के घर से डामर रोड मुख्य मार्ग पार कर सगीर के घर तक |
| पश्चिम | — | सगीर के घर से रामसजीवन के घर को लेते हुए डामर रोड मुख्य मार्ग पार कर मनचाली सोनी भूसा दुकान तक |

वार्ड क्र. 05, शास्त्री वार्ड

| | | |
|--------|---|--|
| उत्तर | — | जयंत शाह के घर से पूर्व की ओर दान बहादुर सिंह के घर से होते हुए सुंदर के घर तक |
| पूर्व | — | सुंदर के घर से सी.सी.रोड होते हुए मल्ला कुम्हार के घर तक |
| दक्षिण | — | मल्ला कुम्हार के घर से सी.सी. रोड होते हुए उमेश होटल तक |
| पश्चिम | — | उमेश होटल से डामर रोड मुख्य मार्ग होते हुए यशवत शाह, जयंत शाह के घर तक |

वार्ड क्र. 06, रानी लक्ष्मी बाई वार्ड

| | | |
|--------|---|---|
| उत्तर | — | मनेद्रगढ़ लेदरी मुख्य मार्ग से सिंघी सोसायटी स्कूल लेते हुए नाले के किनारे किनारे आगे बढ़ते हुए सी.जी.एम बंगला तक |
| पूर्व | — | सी.जी.एम बंगला से सेन्ट्रल स्कूल होते हुए मनोज यादव के घर तक |
| दक्षिण | — | मनोज यादव के घर से नाला होते हुए मनेद्रगढ़ लेदरी मुख्य मार्ग तक |
| पश्चिम | — | नाला के पास से मनेन्द्रगढ़ लेदरी मुख्य मार्ग से होते हुए ईटा भट्ठा के सभी मकान लेते हुए सिंघी सोसायटी स्कूल तक |

वार्ड क्र. 07, महाराणा प्रताप वार्ड

- | | | |
|--------|---|---|
| उत्तर | — | सराई दफाई मे कृष्णा के घर से कालीबाड़ी गोपाल दास के घर तक |
| पूर्व | — | कालीबाड़ी गोपाल दास के घर से मगरदहा नाला तक |
| दक्षिण | — | मगरदहा नाला से पुलिस थाना तक |
| पश्चिम | — | पुलिस थाना से सराई दफाई में कृष्णा के घर तक |

वार्ड क्र. 08, इंदिरा वार्ड

- | | | |
|--------|---|---|
| उत्तर | — | गौरव पथ, पार्क से एस.ई.सी.एल. बिजली ट्रांसफार्मर तक |
| पूर्व | — | एस. ई. सी. एल. बिजली ट्रांसफार्मर से बरसाती नाला वार्ड क्र. 07 की सीमा तक |
| दक्षिण | — | बरसाती नाला वार्ड क्र. 07 की सीमा से जर्नादन तिवारी के घर तक |
| पश्चिम | — | जर्नादन तिवारी के घर से गौरव पथ होते हुए पार्क तक |

वार्ड क्र. 09, डॉ. अम्बेडकर वार्ड

- | | | |
|--------|---|---|
| उत्तर | — | एस.ई.सी.एल. क्लब से नगर पंचायत कार्यालय तक |
| पूर्व | — | नगर पंचायत कार्यालय से गौरव पथ होते हुए कल्पू गुलाब के घर तक |
| दक्षिण | — | कल्पू गुलाब के घर से गौतम के घर होते हुए रामानुज तिवारी के घर तक |
| पश्चिम | — | रामानुज तिवारी के घर से शिव मंदिर मुख्य बाजार होते हुए एस.ई.सी. एल. क्लब तक |

वार्ड क्र. 10, नेहरू वार्ड

- | | | |
|--------|---|---|
| उत्तर | — | हाट बाजार से संतोष मिटठू के घर तक |
| पूर्व | — | संतोष मिटठू के घर से मनोज कश्यप के घर तक |
| दक्षिण | — | मनोज कश्यप के घर से इस्लाम चौक होते हुए अल्ताफ के घर तक |
| पश्चिम | — | अल्ताफ के घर से एस.एल.आर.एम. सेन्टर होते हुए हाट बाजार तक |

वार्ड क्र. 11, तिलक वार्ड

- | | | |
|--------|---|---|
| उत्तर | — | जगदीश बैगा के घर एवं नेपाल सिंह के घर होते हुए बरसाती नाला गौरव पथ रोड तक |
| पूर्व | — | बरसाती नाला गौरव पथ रोड से नगर पंचायत के पंप हाऊस तक |
| दक्षिण | — | नगर पंचायत के पंप हाऊस से बरदफाई होते हुए बब्बू परेवा के घर तक |
| पश्चिम | — | बब्बू परेवा के घर से जगदीश बैगा के घर तक |

वार्ड क्र. 12, सरदार पटेल वार्ड

- | | | |
|--------|---|--|
| उत्तर | — | वार्ड क्र. 12 के आंगन बाड़ी से रामजी यादव के घर तक |
| पूर्व | — | रामजी यादव के घर से वंश गोपाल सिंह के घर तक |
| दक्षिण | — | वंश गोपाल सिंह के घर से तीरथ के घर तक |
| पश्चिम | — | तीरथ के घर से वार्ड क्र. 12 के आंगन बाड़ी तक |

वार्ड क्र. 13, सुभाष वार्ड

- | | | |
|--------|---|---|
| उत्तर | — | कोडाकू मोहल्ला श्यामसुंदर के घर से सुधा रानी के घर तक |
| पूर्व | — | सुधा रानी के घर से खेमलाल के घर तक |
| दक्षिण | — | खेमलाल के घर से जग्गू के घर तक |
| पश्चिम | — | जग्गू के घर से कोडाकू मोहल्ला श्यामसुंदर के घर तक |

वार्ड क्र. 14, नानक वार्ड

- | | | |
|--------|---|--|
| उत्तर | — | ज्वाला प्रसाद मास्टर के घर से अशोक सिन्हा के घर तक |
| पूर्व | — | अशोक सिन्हा के घर से राष्ट्रीय शिक्षा निकेतन स्कूल होते हुए संत सिंह का घर लेते हुए बंशी यादव के घर तक |
| दक्षिण | — | बंशी यादव के घर से जैनीबाई के घर को लेते हुए रोहित के घर तक |
| पश्चिम | — | रोहित के घर से ज्वाला प्रसाद मास्टर के घर तक |

वार्ड क्र. 15, डॉ. राजेन्द्र वार्ड

- | | | |
|--------|---|--|
| उत्तर | — | ऊपर बंगला अभिजीत पाल के घर से शिव प्रसाद शर्मा के घर तक |
| पूर्व | — | शिव प्रसाद शर्मा के घर से मदरसा होते हुए प्रणव मुखर्जी के घर होते हुए जयंत श्रीवास्तव के घर तक |
| दक्षिण | — | जयंत श्रीवास्तव के घर से होते हुए रूखमणी के घर तक |
| पश्चिम | — | रूखमणी के घर से बाबा किराना होते हुए ऊपर बंगला अभिजीत पाल के घर तक |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई, 2019

क्रमांक एफ 01-83/2019/18 : भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 01-83/2019/18 दिनांक 12/07/2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar dated 12 July, 2019

NOTIFICATION

No. F1-83/2019/18 .- In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the Chhattisgarh Municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Jhagrakhand, Distt. Korea as per schedule given Below :-

1. Divides Nagar Panchayat Jhagrakhand into 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

SCHEDULE

| S.No.of ward | Name of the ward |
|--------------|----------------------|
| 1 | Bhagat Singh Ward |
| 2 | Mahatma Gandhi Ward |
| 3 | Vivekanand Ward |
| 4 | Shivaji Ward |
| 5 | Shastri Ward |
| 6 | Rani Laxmi Bai Ward |
| 7 | Maharana Pratap Ward |
| 8 | Indira Ward |
| 9 | Dr.Ambedkar Ward |
| 10 | Nehru Ward |
| 11 | Tilak Ward |
| 12 | Sardar Patel Ward |
| 13 | Subhash Ward |
| 14 | Nanak Ward |
| 15 | Dr.Rajendra Ward |

Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat Jhagrakhand

Ward No. 01, Bhagat Singh Ward

- | | | |
|-------|---|--|
| North | - | Railway gate from Krishna Chaudhari house to Gulab Singh's house. |
| East | - | Gulab Singh's house to Moh. Nanhe house. |
| South | - | Mo. Nanhe house to Ramanuj Shop. |
| West | - | Ramanuj Shop to By the Asphalt Road main road to the railway gate. |

Ward No. 02, Mahatma Gandhi Ward

- | | | |
|-------|---|--|
| North | - | Ranjeet Divan house to Railway gate. |
| East | - | Railway gate to By the Asphalt Road main road to Ashok shop. |
| South | - | Ashok shop to Mubarak house. |
| West | - | Mubarak house to Ranjeet Divan house. |

Ward No. 03, Vivekanand Ward

- | | | |
|-------|---|--|
| North | - | Mandhari house to Mourya Clinic. |
| East | - | Mourya Clinic from By the Asphalt Road main Road via Rajnish pandey house. |
| South | - | Rajnish pandey house to Radha Choudhari house |
| West | - | Radha Choudhari house to Mandhari house. |

Ward No. 04, Shivaji Ward

- | | | |
|-------|---|--|
| North | - | Manchali Soni Bhusa shop to Shankar Lohar house |
| East | - | Shankar Lohar house to Keshav, Shiv Bahadur Singh house |
| South | - | Siv Bahadur Singh house to crossing By the Asphalt Road main Road to Sagir house. |
| West | - | Taking the house of Rams Jiwan from the house of Sageer, crossing the Asphalt Road main road to Manchali Soni Bhusa shop |

Ward No. 05, Shastri Ward

- | | | |
|-------|---|--|
| North | - | From the house of Jayant Shah, from east to Dan Bahadur Singh's house, to the Sundar house |
| East | - | Sundar house to Malla Kumhar house |
| South | - | Malla Kumhar house to via CC road to Umesh Hotel |
| West | - | Umesh Hotel to Asphalt Road main road to Yashwant Shah, Jayant Shah house |

Ward No. 06, Rani Laxmi Bai Ward

- North - Taking the Singhi Society school from Manedargarh Ladri main road, proceeding along the shore of the Nala to the CGM Bungalow
- East - CGM Bungalow to via Central School to Manoj Yadav house.
- South - Manoj Yadav house to Via Nala to Main road Manedargarh Ladri.
- West - Taking all the houses of the Ita Bhatta through Manedargarh main road near the drain, to the Singhi Society School.

Ward No. 07, Maharana Pratap Ward

- North - Sarai Dafai in Krishna house to kalibadi gopal das house
- East - kalibadi gopal das house to Magardaha Nala
- South - Magardaha Nala to Police Station.
- West - Police Station to Sarai Dafai in Krishna house.

Ward No. 08, Indra Ward

- North - Gaurav path Marg to SECL Electricity transformer
- East - SECL Electricity transformer to boundary of Barasati Nala Ward Number 7
- South - boundary of Barasati Nala Ward Number 7 to Janardan Tiwari house .
- West - Janardan Tiwari house to via Gaurav path to Park.

Ward No. 09, Dr.Ambedkar Ward

- North - SECL Club to Nagar Panchayat Office.
- East - Nagar Panchayat Office to via Gaurav Path Kalpu, Gulab house.
- South - Kalpu, Gulab house to via Gautam to house of Ramanuj Tiwari
- West - Ramanuj Tiwari house to via Shiv Mandir main market to SECL Club

Ward No. 10, Nehru Ward

- North - Hat Bazar to house of Santosh Mitthu.
East - Santosh Mitthu house to manoj kashyap house.
South - Manoj Kashyap house to via Islam Chowk to Altaf house
West - Altaf house to via SLRM Center to hat Bazar.

Ward No. 11, Tilak Ward

- North - Jagdish Baiga house and the house of Nepal Singh, to the Barsati Nala, Gaurav Path Road
East - Barsati Nala, Gaurav Path Road to Nagar Panchayat Pump house.
South - Nagar Panchayat Pump house to via Bardafai to Babbu Pareva house.
West - Babbu Pareva house to Jagdish Baiga house.

Ward No. 12, Sardar Patel Ward

- North - Aangan badi of ward no. 12 to house of Ramji Yadav
East - Ramji yadav house to Vansh gopal singh house.
South - Vansh gopal house to Tirath house.
West - Tirath house to Aangan badi of ward no. 12.

Ward No. 13, Subhash Ward

- North - Shyam Sundar house of Kodaku mohalla to House to Sudha Rani.
East - Sudha Rani house to Khemlal house.
South - Khemlal house to Jaggu house.
West - Jaggu house to Shyam Sundar house of Kodaku mohalla

Ward No. 14, Nanak Ward

- North - Jwala Prasad Master house to Ashok Sinha House.
East - Taking home the house of Sant Singh while staying at the Rashtriya Siksha Niketan from Ashok Sinha house, to the house of Banshi lal Yadav
South - Banshi lal Yadav house to via Jainibai house to Rohit house.
West - Rohit house to Jwala Prasad Master house

Ward No. 15, Dr.Rajendra Ward

- | | | |
|-------|---|---|
| North | - | From the house of Abhijeet Pal from Upper Bangla to Shiv Prasad Sharma house. |
| East | - | From Pranav Mukherjee house while being a seminary from Shiv Prasad Sharma's house, Jayant Shrivastava house. |
| South | - | Jayant Shrivastava house to Rukhmani house |
| West | - | From the house of Rukmani to Baba Kirana to the house of Abhijeet Pal Upper Banla. |

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,
R.EKKA, Deputy Secretary.